

कार्यपालक अभियंता कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक.....1041 (230)

डिहरी / दिनांक 07.11.2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ब्राडा,भूमि विकास बैंक भवन,
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :- **MR New Maintenance policy-2018** में किये गये कार्य के विरुद्ध
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि **MR New Maintenance policy-2018** अर्न्तगत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित नहीं है। उक्त पथ का सभी डाटा की प्रविष्टि MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

NKumar
07.11.22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

NK
07/11/2022

FORM GFR 19 -A
(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the Month of November 2022
NEW MAINTENANCE POLICY 2018 MR (3054)

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date With amount(in Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1	Contruction of Rural Road under MR-03054	35 13.10.2022	1811.02831	Certificate that out of Rs. 1811.02831 Lacs received during the years in favour of Executive Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 1745.03765 Lacs has been utilised for the purpose of MR (3054)-2018 Fund hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 65.99066 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
TOTAL			1811.02831	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized

for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspectioin has been conducted by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

Sir
D.A.O 07/11/22
RWD (W) Div. Dehri

NKumar
07.11.22
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri
NKB
07/11/2022

Office of the Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Dehri

Requisition formate Scheme Head MR (3054) under Bihar road Maintenance Policy-2018 (Rectification and Surface Renewal)

Sl No	Package No.	Name of Road	Project Id as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. and Date	Administrative Approval (AA)		Agreement (in Lakh)		Agreement No. and Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of (Rupee) (in mm/Km)	Thickness of Bitumin Layer (in mm)	Value of Bitumin Content in Percentage	Previous total amount (in Lakh)	Up to Date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against Work Done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in lakh)	Initial Rectification on Surface Renewal (in Lakh)	Five Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/RO/DEH/20/0005	Aksharapur Yadunathpur Road to Thumba liwahh Bara D	RM/RO/DEH/20/0005	5547 Dt-23.10.2019	1.15	47.5967	25.898	11.09613	04/09-07-2021	08-07-2022	11-06-2022	2427.5	25 MM	5%	18.05	18.05	2.56571	Work Completed.

- निम्नोक्त पत्रांक-मु030(प्र) 3054-4-04/2020 पार्त 4 5047 दिनांक 23.12.2021 के आलेख में प्रमाणित किया जाता है कि-
1. गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करने के बाद MIB में दर्ज किया गया है।
 2. सम्बंधित कार्य कर्मीय अभियंता द्वारा कराया गया (100% जांचा गया) सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

Dr. 07/11/22
DFO
RWD (W) Div. Dehri

07.11.22
EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION,
DEHRI

07/11/2022

Road Name-Akabarpur Yadunathpur Road to Thumba Itiwah Bara D

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI TEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
4/6/22	15:2:0	101	0.1	250	30.3	2500	2915 G	24.59468	83.94683	Normal
4/6/22	15:2:6	101	0.1	230	30.3	2300	2715 G	24.59465	83.94668	Normal
4/6/22	15:2:6	101	0.1	190	40.4	1900	2315 G	24.59441	83.94632	Normal
4/6/22	15:2:6	101	0.1	170	40.4	1700	2115 G	24.59428	83.94575	Speed Breaker
4/6/22	15:4:42	101	0.1	200	30.3	2000	2415 G	24.59458	83.94483	Normal
4/6/22	15:4:42	101	0.1	170	40.4	1700	2115 G	24.59438	83.94364	Normal
4/6/22	15:4:42	101	0.1	150	40.4	1500	1915 G	24.59446	83.93986	Normal
4/6/22	15:4:0	101	0.1	250	30.3	2500	2915 G	24.59479	83.93901	Normal

$$Y = 0 \cdot X^2 + 1.000 \cdot X + 415.2$$

$$X = 2900$$

$$Y = 3315$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

IRI Value
Average IRI-2427.5

25
04.06.22
J.E

04.06.22
A.E

04.06.22
E.E

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the completion of the measurements relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: - Construction of M/R Road Akbarpur, Yadunathpur Road to Thumba					
Name of Agency: - Shree Baldev singh village & Po - Salendarnagar Aurangabad					
Agg. No: - 04/MR 3084/2020-21					
Agg. Amount - Rs 27391351.00					
Date of work start - 09-07-21					
Date of Completion - 08-07-22					

Date of measurement: -

① clearing & grubbing Road land
do-do all complete job
 $2 \times 1150 \times 1.00 = 2300 \text{ or } 0.23 \text{ HA}$

② Construction of subgrade & earthen
Shoulder do-do all complete job -
B.T portion
 $2 \times 1150 \times 1.00 \times 0.60 = 1380 \text{ or } 0.00 \text{ m}^3$
Limit 575.00 m³

Continuation

B.F. -20,58,900/-

Sch. XLV-Form No. 134 **18**

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
(19) Painting two coat -- as per spec diag E 12 Qty vide M.B.P. 13/6 = 59.76 m ² @ Rs 97.19/m ² B 5808.00 ✓					
(20) P/E typical M.R board -- as per spec Qty vide M.B.P. 10/13 = 4 m ² @ Rs 9336.32/m ² B 37,345.60 ✓ B 21,02,053.40 ✓					
Add 12.1. GST -				2,52,246.00	
Add 1.1. L.S -				21,020.00	
Add Signature -				19,350.00	
			B	23,94,669.00	
less 13.91.1. as per agg			(-) B	3,33,098.00	
			B	20,61,571.00	
less Provision Payment @ 10				18,05,000.00 ✓	
2007-22 J.E 03 04.7.22 0317 02				2,56,571.00 ✓	
Materials					
(1) Stone chips - 3.90 m ³					

Continuation

C & P
M. K. Man
02.11.22